



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 26—सितम्बर 1, 2006 (भाद्रपद 4, 1928)
No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 26—SEPTEMBER 1, 2006 (BHADRA 4, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग	पृष्ठ सं.	विषय	पृष्ठ सं.
भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के और मंत्रालयों उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	697	(जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	789	भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	9	भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	2151
भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1061	भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	425
भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	5127
भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	575
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्णक	*
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं।	*		
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों	*		

*अंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	697	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	789	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	9	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	2151
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1061	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	425
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	5127
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	575
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*		

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
 नई दिल्ली-110049, दिनांक 8 अगस्त 2006

संकल्प

सं.एच-11018/1/92-हिंदी: भारत के राजपत्र के भाग-I खंड-1 में पृष्ठ 1099-1100 पर दिनांक 15 नवम्बर, 2003 को प्रकाशित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के दिनांक 29.10.2003 के समसंख्यक संकल्प में केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात:-

(i) क्रम सं.4 के सामने की गई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि की जाए:-

'4 सुश्री अनुसूया उइके, संसद सदस्य (राज्य सभा)
 307, एम.पी. भवन, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई मार्ग,
 चाणक्यपुरी, नई दिल्ली '

(ii) 'सरकारी सदस्य' शीर्ष के अंतर्गत क्रम सं. 20, 23, 24 और 25 के सामने की गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएं -

'20 - संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय'
 '23 - निदेशक (एसकेएल), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय'
 '24 - उपसचिव (एनएमएलबी), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय'
 '25 - उपसचिव (केएस), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय'

(iii) समिति के अन्य नियम और शर्तें पूर्ववत् रहेंगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, मंत्रिमंडल सचिवालय, लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को प्रेषित की जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

अरुण कुमार
 संयुक्त सचिव

संकल्प

सं.एच-11018/1/92-हिंदी: भारत के राजपत्र के भाग-I खंड-1 में पृष्ठ 41 पर दिनांक 15 जनवरी, 2005 को प्रकाशित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 के समसंख्यक संकल्प में केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:-

(i) क्रम सं.3 के सामने की गई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि की जाए:-

'3 श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा, संसद सदस्य (लोक सभा)
गाँव एवं डाकघर, सांघी, तहसील एवं जिला रोहतक,
हरियाणा'

(ii) समिति के अन्य नियम और शर्तें पूर्ववत् रहेंगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, मंत्रिमंडल सचिवालय, लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को प्रेषित की जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

अरुण कुमार
संयुक्त सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 अगस्त 2006

अगस्त, 2006

संकल्प

सं. ई-11012/7/2006-रा.भा. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग के दिनांक 5 जुलाई, 2000 के संकल्प संख्या 11020/1/98-राजभाषा का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार एतद्वारा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति का निम्नप्रकार पुनर्गठन करती है:-

I गठन

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री | अध्यक्ष |
| 2. | संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री | उपाध्यक्ष |

गैर-सरकारी सदस्य

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित

- | | | |
|----|---|-------|
| 3. | चौधरी लाल सिंह, संसद सदस्य (लोक सभा) | सदस्य |
| 4. | श्री हरिन पाठक, संसद सदस्य (लोक सभा) | सदस्य |
| 5. | श्री बी.के. हरिप्रसाद, संसद सदस्य (राज्य सभा) | सदस्य |
| 6. | श्री दिग्विजय सिंह, संसद सदस्य (राज्य सभा) | सदस्य |

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित

- | | | |
|----|--|-------|
| 7. | डॉ० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय, संसद सदस्य (लोक सभा) | सदस्य |
| 8. | श्री संतोष गंगवार, संसद सदस्य (लोक सभा) | सदस्य |

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा द्वारा नामित

- | | | |
|----|--|-------|
| 9. | प्र० अनन्तराम त्रिपाठी,
प्रधान-मंत्री,
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा,
डाकघर- हिन्दी नगर,
वर्धा-442003 (महाराष्ट्र) | सदस्य |
|----|--|-------|

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद द्वारा नामित

10. श्री रमेश चन्द्र जोशी, सदस्य
फ्लैट नंबर 148,
सेक्टर-3, पॉकेट-16,
द्वारका, दिल्ली 110 075

राजभाषा विभाग द्वारा नामित

11. श्री विजयप्रकाश ओमप्रकाश शर्मा, सदस्य
2400/1 नगरपालिका के सामने, मेन रोड,
शहादा, जिला नंदुरबार, पिन- 425 409,
महाराष्ट्र ।
12. श्री जगदीश ठकराल, सदस्य
जे-83, कालकाजी,
नई दिल्ली ।
13. डॉ० वाई. लक्ष्मी प्रसाद, सदस्य
इंजीनियरिंग कालेज स्टाफ क्वार्टर्स,
आन्ध्र विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम,
आन्ध्र प्रदेश- 530 003.

दूरसंचार विभाग द्वारा नामित

14. प्रो० चित्तरंजन मिश्र, सदस्य
29(क) हीरापुरी, विश्वविद्यालय परिसर,
गोरखपुर-273 009 (उत्तर प्रदेश)
15. प्रोफेसर डॉ० वीरेन्द्र कुमार दुबे, सदस्य
प्राध्यापक, कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय,
चौरई छिंदवाड़ा-480 115 (मध्य प्रदेश)
16. श्री हरिहर लाल श्रीवास्तव, सदस्य
के. 56/31, औसानगंज,
वाराणसी-221 001 (उत्तर प्रदेश)
17. श्री राजेन्द्र पटोरिया, सदस्य
आजाद चौक, सदर,
नागपुर-440001 (महाराष्ट्र)

सरकारी सदस्यराजभाषा विभाग

- | | | |
|-----|--------------|-------|
| 18. | सचिव | सदस्य |
| 19. | संयुक्त सचिव | सदस्य |

दूरसंचार विभाग

- | | | |
|-----|---|------------|
| 20. | सचिव, दूरसंचार | सदस्य |
| 21. | सदस्य (सेवाएं) | सदस्य |
| 22. | सदस्य (वित्त) | सदस्य |
| 23. | सदस्य (प्रौद्योगिकी) | सदस्य |
| 24. | विशेष सचिव | सदस्य |
| 25. | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
आईटीआई, बेंगलूर । | सदस्य |
| 26. | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
टीसीआईएल, नई दिल्ली । | सदस्य |
| 27. | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
बीएसएनएल, नई दिल्ली । | सदस्य |
| 28. | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
एमटीएनएल, नई दिल्ली । | सदस्य |
| 29. | कार्यकारी निदेशक,
सी-डाट, नई दिल्ली । | सदस्य |
| 30. | वरिष्ठ उप महानिदेशक,
टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेन्टर, नई दिल्ली । | सदस्य |
| 31. | संयुक्त सचिव(प्रशासन) | सदस्य-सचिव |

II समिति का कार्य

इस समिति का कार्य भारत के संविधान में राजभाषा के संबंध में की गई व्यवस्था, राजभाषा अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, केन्द्रीय हिंदी समिति के निर्णयों तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा दूरसंचार विभाग और उसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, निगम/उपक्रमों के कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के बारे में सलाह देना है ।

III समिति का कार्यकाल

समिति का कार्यकाल इसके गठन की तारीख से तीन वर्ष के लिए होगा। संसद सदस्य, जो इस समिति के सदस्य हैं, सदन भंग होने अथवा उनका कार्यकाल समाप्त होने पर या अन्यथा सदन का सदस्य न रहने पर, समिति के सदस्य नहीं रहेंगे। समिति में स्थान खाली होने पर यदि किसी व्यक्ति को सदस्य नामित किया जाता है तो वह शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहेगा। विशेष परिस्थितियों में समिति का कार्यकाल घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

IV यात्रा और अन्य भत्ते

समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 03 फरवरी, 2006 के कार्यालय ज्ञापन सं. II/20034/04/2005-रा.भा.(नीति-2) में निहित दिशानिर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। तथापि, आवश्यकता पड़ने पर समिति अपनी बैठकें किसी अन्य स्थान पर भी कर सकती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, लोक/राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, संसदीय राजभाषा समिति, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और मंत्रिमंडल कार्य विभाग के वेतन तथा लेखा कार्यालय, नई दिल्ली को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

हरीश चन्द्र जयाल
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

New Delhi-110049, the 8th August 2006

RESOLUTION

No.H-11018/1/92-Hindi: In the Resolutions of even number dated the 29th October 2003 of the Ministry of Food Processing Industries published at pages 1101-1102 in Part-1 Section-1 of the Gazette of India dated the 15th November 2003, the Central Government hereby makes the following amendments, namely:-

- i) For the entries against serial no. 4, the following entries shall be substituted:-
'4-Miss Anusuiya Uikey, Member of Parliament (Rajya Sabha), 307, M.P.Bhavan, Lokpriya Gopinath Bardolai Marg, Chanakyapuri, New Delhi.'
- ii) Under the heading 'Official Members' for the entries against serial No. 20, 23, 24 & 25, the following entries shall be substituted:-
'20-Joint Secretary, Ministry of Food Processing Industries.'
'23-Director (SKL), Ministry of Food Processing Industries.'
'24-Deputy Secretary (NMLB), Ministry of Food Processing Industries.'
'25-Deputy Secretary (KS), Ministry of Food Processing Industries.'
- iii) Other terms and conditions of the Committee shall remain unchanged.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution may be sent to all Members of the Committee, all the Ministries/Departments of the Government of India, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariat, Cabinet Secretariat and Planning Commission.

Also ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ARUN KUMAR
Joint Secy.

RESOLUTION

No.H-11018/1/92-Hindi: In the Resolutions of even number dated the 31st December 2004 of the Ministry of Food Processing Industries published at page 41 in Part-1 Section-1 of the Gazette of India dated the 15th January 2005, the Central Government hereby makes the following amendments, namely:-

- i) For the entries against serial no. 3, the following entries shall be substituted:-
'3-Shri Deepender Singh Hooda, Member of Parliament (Lok Sabha), Village and P.O. Sanghi, Tehsil and District Rohtak, Haryana.'
- ii) Other terms and conditions of the Committee shall remain unchanged.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution may be sent to all Members of the Committee, all the Ministries/Departments of the Government of India, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariat, Cabinet Secretariat and Planning Commission.

Also ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ARUN KUMAR
Joint Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi, the 7th August 2006

RESOLUTION

No. E-11012/7/2006-O.L. In supersession of the Department of Telecommunications, Ministry of Communications & I.T., Resolution No.11020/1/98-O.L. dated 5th July, 2000, the Government of India hereby reconstitutes the Hindi Salahkar Samiti of the Department of Telecommunications, Ministry of Communications and Information Technology as under : -

I. Composition

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | Minister of Communications & Information Technology | Chairman |
| 2. | Minister of State for Communications & I.T. | Vice Chairman |

Non-Official Members

Nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs

- | | | |
|----|--|--------|
| 3. | Chaudhary Lal Singh, M.P.(Lok Sabha) | Member |
| 4. | Shri Haren Pathak, M.P.(Lok Sabha) | Member |
| 5. | Shri B.K.Hariprasad, M.P.(Rajya Sabha) | Member |
| 6. | Shri Digvijay Singh, M.P.(Rajya Sabha) | Member |

Nominated by the Committee of Parliament on Official Language

- | | | |
|----|---|--------|
| 7. | Dr. Laxmi Narayan Pandey, M.P.(Lok Sabha) | Member |
| 8. | Shri Santosh Gangwar, M.P.(Lok Sabha) | Member |

Nominated by Rashtrabhasha Prachar Samiti, Vardha

- | | | |
|----|---|--------|
| 9. | Prof. Anantram Tripathi,
Pradhan Mantri,
Rashtrabhasha Prachar Samiti, Vardha,
P.O.- Hindi Nagar,
Vardha-442003 (Maharashtra) | Member |
|----|---|--------|

Nominated by Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad

- | | | |
|-----|---|--------|
| 10. | Shri Ramesh Chandra Joshi
Flat No.-148,
Sector-3, Pocket-16,
Dwarka, Delhi - 110 075 | Member |
|-----|---|--------|

Nominated by the Department of Official Language

- | | | |
|-----|--|--------|
| 11. | Shri Vijayprakash Omprakash Sharma,
2400/1 , Opposite Nagarpalika, Main Road,
Shahada, District- Nandoorbar,
Maharashtra PIN- 425 409 | Member |
| 12. | Shri Jagdish Thakral,
J- 83, Kalkaji,
New Delhi . | Member |
| 13. | Dr. Y. Lakshmi Prasad,
Engineering College Staff Quarters,
Andhra University, Visakhapatnam,
Andhra Pradesh – 530 003. | Member |

Nominated by the Department of Telecommunications

- | | | |
|-----|---|--------|
| 14. | Prof. Chitranjan Mishra,
29(A) Hirapuri, University Compound,
Gorakhpur-273009 (Uttar Pradesh) | Member |
| 15. | Prof. Dr.Virendra Kumar Dubey,
Lecturer, Art and Commerce College,
Chaurai Chindwara-480115.
Madhya Pradesh. | Member |
| 16. | Shri Harihar Lal Srivastav,
K. 56/31, Ausanganj, Varanasi-221001
Uttar Pradesh | Member |
| 17. | Shri Rajendra Patoria,
Azad Chowk, Sadar,
Nagpur – 440 001 (Maharashtra) | Member |

Official Members**Department of Official Language**

- | | | |
|-----|-----------------|--------|
| 18. | Secretary | Member |
| 19. | Joint Secretary | Member |

Department of Telecommunications

- | | | |
|-----|---|------------------|
| 20. | Secretary (Telecom.) | Member |
| 21. | Member (Services) | Member |
| 22. | Member (Finance) | Member |
| 23. | Member (Tech.) | Member |
| 24. | Special Secretary | Member |
| 25. | Chairman & Managing Director,
I.T.I. Bangalore. | Member |
| 26. | Chairman & Managing Director,
T.C.I.L., New Delhi. | Member |
| 27. | Chairman & Managing Director,
B.S.N.L., New Delhi. | Member |
| 28. | Chairman & Managing Director,
M.T.N.L., New Delhi. | Member |
| 29. | Executive Director, C-DoT,
New Delhi. | Member |
| 30. | Sr.DDG, Telecom.Engineering Centre,
New Delhi. | Member |
| 31. | Joint Secretary(Admn.) | Member-Secretary |

II. FUNCTIONS OF THE SAMITI

Functions of the Samiti will be to render advice to the Government in regard to the implementation of the provisions relating to Official Language contained in the Constitution, Official Languages Act and Rules and Policy decisions of the Kendriya Hindi Samiti and instructions issued by the Department of Official Language and also in regard to the progressive use of Hindi in the Department of Telecommunications and its attached, subordinate, corporate offices.

III. TENURE OF THE SAMITI

The tenure of the Samiti will be three years from the date of its constitution . Members of Parliament, who are members of the Samiti, shall cease to be members of the Samiti on the dissolution of the House or on expiry of their term or otherwise ceasing to be members of the House. If a vacancy arises in the Samiti, the member nominated against that vacancy shall hold office for the remaining period. Under special circumstances the tenure of the Samiti may be curtailed or extended.

IV. TRAVELLING AND OTHER ALLOWANCES

The non-official members attending the meetings of the Samiti would be paid T.A. and D.A. as per the guidelines contained in the Department of Official Language O.M. No. II/20034/04/2005-O.L.(Policy-2), dated 03 February,2006 and as per the prescribed rates and rules as amended from time to time by the Govt. of India.

The Headquarters of the Samiti shall be at New Delhi. However, it may hold its meetings at any outstations also, if necessary.

ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to all members of the Samiti, all State Governments and Union Territory Administrations, all Ministries and Departments of the Govt. of India, President Secretariat, Prime Minister Office, Cabinet Secretariat, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

Ordered also that a copy of this Resolution be published in the Gazettee of India for general information.

HARISH CHANDRA JAYAL
Joint Secy.